



सीमा से लगे नेपाल के बारा व रौतहट की पुलिस टीम ने नकली नेपाली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसमें संलिप्त पांच लोगों को पकड़ा है। गिरोह के पांचों सदस्य मधेशी मूल के नेपाली नागरिक बताए गए हैं। इस बड़े गिरोह के कारोबार व जाली नोट बरामदगी के मामले की जांच काठमांडू से पहुंची नेपाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है।

बारा जिले के निजगढ़ स्थित होटल तारा इन में पिछले तीन वर्षों से नियमित ग्राहक के तौर पर रह रहे कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं। जो अपने को प्रोपर्टी डीलर बता कर दो दिनों से दो रूम ले रखा था। सबसे पहले शनिवार को पुलिस टीम ने इन्हीं चार को 25 हजार रुपये नकली नेपाली मुद्रा के साथ पकड़ा। इसके बाद मिले सुराग के आधार पर बारा जिला पुलिस ने रौतहट के चन्द्र निगाहपुर में छापेमारी की, जहां से भी एक कारोबारी को पकड़ा गया। इनके पास से होटल के आगे खड़े एक स्कॉर्पियो व बाइक जब्त किया है। रौतहट के चन्द्र निगाहपुर स्थित सुनील राम के यहां छापेमारी में प्लसर सीसी बाइक व एक भारतीय नंबर की बाइक सुपर स्पलेंडर भी बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रविवार सुबह इन पांचों को कड़ी सुरक्षा में बारा जिला के कलैया स्थित जिला पुलिस कार्यालय में लाया गया। पुलिस के वरीय अधिकारी व सीआइबी की टीम जांच कर रही है। पुलिस ने चारों के पास से एक हजार रुपये नेपाली मुद्रा के कुल 25 नोट यानी कुल 25 हजार रुपये नकली और सुनील राम के पास से एक हजार रुपये के आकार के सौ सौ के बंडल में कुल 93 गड्डी बरामद किया जो नेपाली मुद्रा छपाने के लिए रखा गया था। जबकि एक हजार रुपये की दर के 39 अदद यानी 39 हजार रुपये असली नेपाली मुद्रा बरामद हुआ। जिससे यह अनुमान लगा कि ये ठगी का कार्य भी करते हैं। बारा एसपी दीपेंद्र शाही ने बताया कि नेपाली नकली नोट कारोबार में शामिल पांच लोगों के हिरासत में लिया गया है। 25 हजार रुपये नकली नेपाली मुद्रा व नोट छापने के लिए तैयार 93 गड्डी कटिंग पेपर व 39 हजार रुपये नेपाली मुद्रा बरामद होने की पुष्टि की है।

Source: <https://www.livehindustan.com/bihar/motihari/story-five-arrested-in-nepalese-fake-note-business-4571490.html>